

आज दिनांक 11 जून, 2017 को प्रातः 10:00 बजे से मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व चीफ पैट्रन स्व. डॉ० गौर हरी जी सिंघानिया के जन्म की 82वीं सालगिरह के अवसर लगातार द्वितीय वर्ष **“निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर”** का आयोजन मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया।

स्वास्थ्य शिविर का आयोजन मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, जे. के. गुप, मधुराज हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, आर.के.देवी मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, पालीवाल डायग्नोस्टिक्स, एवं डॉ. ए.एस. प्रसाद के सौजन्य से किया जी के सौजन्य से किया गया था।

आयोजित शिविर में उदघाटन के समय से डॉ० गौर हरी जी सिंघानिया के जीवन पर आधारित एक डोक्युमेंट्री प्रस्तुत की गयी।

शिविर का उदघाटन श्री यदुपति सिंघानिया के कर कमलों द्वारा किया गया तथा उनके साथ श्री अभिषेक सिंघानिया उपस्थित थे। श्री सिंघानिया जिसमें उन्होंने ने प्रत्येक डॉक्टर्स से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर स्वास्थ्य शिविर की सफल स्थिति का जायजा लिया।

निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में लगभग 570 से अधिक लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया जिसमें मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश व् जे.के. गुप के स्वयंसेवक एवं डॉक्टर्स के साथ आये उनके सहयोगियों द्वारा शिविर को आयोजित करने में अपना यथासंभव योगदान दिया गया।

आयोजित किये गए शिविर का मुख्य उद्देश्य कानपुर शहर के निवासियों को विशेषकर आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग के मरीजों का परीक्षण, परामर्श व् निःशुल्क दवा-वितरण की गयी।

इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में उपस्थित निम्न चिकित्सकों का विवरण :

अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. ए.एस. प्रसाद एवं उनके सहयोगी डॉक्टर्स, **हृदय रोग विशेषज्ञ** डॉ. आर.पी.एस. भारद्वाज एवं उनके सहयोगी डॉक्टर्स, **चेस्ट रोग विशेषज्ञ** डॉ. एस.के. कटियार, **नेत्र रोग विशेषज्ञ** डॉ. अवध दुबे व् डॉ. गौरव दुबे, **बाल रोग विशेषज्ञ** डॉ. नवीन सहाय व् डॉ. सविता रस्तोगी, **साधारण रोग विशेषज्ञ** डॉ. प्रशांत सिंह, डॉ. के. एन. गुप्ता व् डॉ. अनिल मित्रा, **नाक कान गला (ENT) रोग विशेषज्ञ** डॉ. संगीता सेंगर, **स्त्री रोग विशेषज्ञ** डॉ. नीता चौधरी व् डॉ. रश्मि सहाय, तथा **पैथालोजिस्ट** डॉ. उमेश पालीवाल व् डॉ. अल्का शर्मा उपस्थित थे।

स्वास्थ्य शिविर में रक्तचाप, मधुमेह जैसी जांचे तथा वजन किया गया तत्पश्चात सम्बंधित डॉक्टर्स द्वारा आवश्यकतानुसार उचित परामर्श दिया गया।

पालीवाल डायग्नोस्टिक्स द्वारा खून की जाँच, हिमोग्लोबीन, टी.एल.सी, डी. एल.सी., प्लेटलेट काउंट्स, जैसी जांचे मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध करवायी गयी एवं मरीजों को डॉ पालीवाल के डायग्नोस्टिक

सेंटर पहुँचने की सलाह दी गयी जिससे वह उनके जांच की रिपोर्ट दे सकें एवं आवश्यकतानुसार निशुल्क परामर्श भी दे सकें ।

स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टरों ने निरंतरता से मरीजों को देखा तथा साथ ही साथ शिविर में जांच करवाने आये मरीजों की अत्यधिक संख्या को देखकर डॉक्टरों ने अपना हर्ष व्यक्त किया ।

शिविर में डॉक्टरों के परामर्श के अनुसार ई.सी.जी. व् बोन डेन्सिटी परीक्षण भी निशुल्क किया गया ।
शिविर में आये मरीजों को परामर्श देने व् सभी परीक्षण की समाप्ति के बाद डॉक्टरों द्वारा अपने क्लिनिक पर बुलाया जाएगा जिसमें रोगी को डॉक्टरों द्वारा दिए गए पर्चे के साथ पहुंचना होगा जिसकी सहयता से डॉक्टर्स उस पर्चे को देखकर के सम्बंधित रोगी का निशुल्क परामर्श दे सकेंगे ।
मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य सहयोगी संस्थाओं द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस तरह का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित करने का निश्चय लिया गया ।

स्वास्थ्य शिविर में उपस्थित प्रमुख गणमान्य: मर्चेट्स चैम्बर के अध्यक्ष श्री पदम् कुमार जैन, मर्चेट्स चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री बी.के. लाहोटी, श्री बी.एम.गर्ग, श्री अनिल अग्रवाल, श्री ए.के. सरोगी, श्री मुकुल टंडन, श्री अतुल कनोडिया, श्री सुशील कनोडिया, श्री ए.के. सिन्हा, श्री राम नाथ महिन्द्रा, श्री एस.सी. गर्ग, मर्चेट्स चैम्बर के सदस्यगण व् जे.के. ग्रुप के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे ।

सधन्यवाद

मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश